

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2010—कार्तिक 7, शक 1932

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं